

God's Simple Plan of Salvation taken from I John

Introduction

The Bible is very clear that you can know for sure that when you die that you can go to heaven. The question is do you believe what God says in his word.

1 John 5:13 दी यिकी ति खयिराडः कोन्छ्योककी सेवु येसूला तेपा कितुपतिवाला नामसाडः मिशिवु मिजी थोपशी सिनी हाक्को ज्यितुपला डेः टिवु यिनो।

1. We are all sinners!

It is not hard to admit that we all have done things that we know is wrong, but yet we do them anyway. That is called sin! We all are guilty of it we have been doing it since we were born.

1 John 1:8 दोजो दाक्पी डःला याडः दिक्पा राडः मे सिवी सिसिन, दाक्पी दाक्पुला राडः जिनोक जोवु दोके यिन। तमा दाक्पी सेमला टेड्बु मेतुप यिन।

1 John 5:16-17 सी साडः यम्बा नुपकी दिक्पा कितुप थोडःसुडः, यिने ती दिक्पा ति ड्येलाला क्योलुप दिक्पा मिन्सिन, तीकी तिवी थोकला कोन्छ्योकला मोपोर कि गोकिवी। तीकी कयावु दिक्पा ति ड्येलाला क्योलुप दोके मेसिन कोन्छ्योककी तीला मिजी नड्गिवी। यिने ड्येलाला क्योलुप दिक्पा साडः वे। तीकी थोकला ति डः सुला साडः गोड्बा शु सिनी मिसिर। टेड्बु मेतुपतिवा तेरी दिक्पा यिन। यिने ललाइ दिक्पा साडः गिवी, तीकी ड्येलाला मोक्योल्वी।

1 John 3:6 तुक कयानी खो ताडः मुला तम्जी ल्यामु वोतुपतिवी दिक्पा मिकिवी। दिक्पा कया कयावा देतुप मीतिवा सी साडः खोला माथोडः वे, डो साडः माशे वे।



We are all sinners!

2. There is a cost for your sin!

1 John 5:19 दाक्पु ति कोन्छ्योककी पुज्युडःपुमतिवा यिन सिनी दाक्पुला छ्या वे। यिने दी जम्बुलिडः ति तेरी दुक्टाकी ओडःला शोर्नी वे।

1 John 5:12 सी ति खोकी सेवु येशू ताडः मुला तम्जी ल्यामु नोके, तीकी मुला मिजी साडः वे। तमा खोकी सेवु ताडः मुला तम्जी ल्यामु मेतुप तीकी मुला मिजी साडः मे।

1 John 3:15 रडगी अच्युनुपतिवाला इयिडःज्ये मिकिवु मीतिवा तेरी शेन्बा दोके यिन। तीला नाम्साडः मिसिवु मिजी मोथोपिवी सिरुप ति ख्यिराडःला साडः छ्या वे।

3. Jesus died and paid for our sins on the cross!

1 John 4:9-10 कोन्छ्योककी दाक्पुला चुक क्यानी इयिडःज्ये क्यासुडः सिसिन खोकी सेवुला तेपा क्यानी दाक्पु सेन्बु लुशी सिनी खोकी च्यिक राडः वोतुप सेवु ति दी जम्बुलिडःला ताडःसुडः। इयिडःज्ये सिरुप ति काडः यिन सिसिन, कोन्छ्योकला दाक्पी इयिडःज्ये क्यावु मिन, यिने खोकी दाक्पुला इयिडःज्ये क्या नाडःनी दाक्पी दिक्पी ठिलेन च्योलुपला खोकी सेवु येशू ख्रीष्ट ताडःनी जिन्बा च्युडः च्यिसुडः।



Christ died for sinners!

1 John 4:2-3 चुका तीकी येशू ख्रीष्ट दी जम्बुलिडःला मी जुजमला फेवु यिन सिनी सि वे, तीला कोन्छ्योक नेमा वावु थु चाडःमा वे। यिने चुका तीकी येशू ख्रीष्ट दी जम्बुलिडःला मी जुजमला फेवु यिन सिनी मिसिर वे, ती ति कोन्छ्योक नेमा वावु मिन, येशूकी तेन्दोकला लडःगुप थु मेटेडःबु यिन। तीकी कोर्ला तोडःला के जम्बुलिडःला गिवी सिनी ख्यिरा हाक्को वे। ती ति जम्बुलिडःला वान सिन वे।

1 John 5:11 पडःबु ति दी राडः यिन, कोन्छ्योककी दाक्पुला नाम्साडः मिशिवु मिजी नाडःसुडः। ती मिजी ति खोकी सेवु येशूकी मुला वे।

4. We must put our faith and trust in Christ alone!

1 John 5:14-15 दाक्पी कोन्छ्योकला रेवा क्यावु ति काडः यिन सिसिन, खोकी नोवाला काडः लडःसिनाडः खोकी दाक्पुला नडःगिवी सिरुप ति दाक्पुला तेन्तेन वे। तुक क्यानी दाक्पी मोपोर क्यानी काडः लडःसिनाडः कोन्छ्योककी सेन्गिवी सिरुप ति दाक्पुला छ्या वोतुप तप्की दाक्पी खोला काडः लाडःवे, ती ति इयेनिडः वे सिनी तेन्तेन गिवी।

Romans 10:9-10, 13 दोजो ख्योरो मीतिवी मिडःगाला येशूला चोवो यिन सिनी ख नेमा सिवी, तमा कोन्छ्योककी खोला शेप ने डोसु लडःगुप यिन सिनी सेमला तेपा क्यासिन ख्युरुडः दिक्पा ने थर्किवी। च्यिलासिसिन सी खोला सेम नेज्युनी तेपा किवे, ती ति

कोन्छ्योककी थोङ्दाङला टेङ्बु ड्येकिवी। सी मीतिवी मिङ्गाला खोला तेपा कितिन सिनी सिवे, तीला दिक्पा ने थर ज्यिकिवी। तीकी कोर्ला कोन्छ्योककी सुङला दुक सिनी टि वे, “चोवो कोन्छ्योकला रेन्दुपतिवा तेरीला खोकी थर ज्यिकिवी।”

If you want to accept Jesus Christ as your Savior and receive forgiveness from God, here is prayer you can pray. Saying this prayer or any other prayer will not save you. It is only trusting in Jesus Christ that can provide forgiveness of sins. This prayer is simply a way to express to God your faith in Him and thank Him for providing for your forgiveness.

"Lord,

I know that I am a sinner. I know that I deserve the consequences of my sin. However, I am trusting in Jesus Christ as my Savior. I believe that His death and resurrection provided for my forgiveness. I trust in Jesus and Jesus alone as my personal Lord and Savior. Thank you Lord, for saving me and forgiving me! Amen!"

If you just prayed that prayer — according to the Word of God — YOU ARE SAVED! HALLELUJAH!

You say, but I don't feel any different. Guess what? Your salvation does not depend on your feeling. **It ALL depends on doing what God SAID!**

God said if you receive and trust in Jesus Christ you are saved. Notice it does NOT say you "might" or "could" be saved — but "shall be saved". **YOU ARE SAVED!**

“चोवो कोन्छ्योकला रेन्दुपतिवा तेरीला खोकी थर ज्यिकिवी।” Romans 10:13

Didn't you just believe on the Lord Jesus Christ? Look at what John 3:36 says! It says you **HATH EVERLASTING LIFE!** Not "maybe" or "hope so" — **BUT HATH — YOU ARE SAVED!**

सी कोन्छ्योककी सेवुला तेपा किवे, तीला नाम्साङ मिशिवु मिजी थोप्किवी। यिने सी कोन्छ्योककी सेवुला तेपा मिकिवे, तीला ती मिजी मोथोपिवी, बोरु कोन्छ्योककी पर्च्या तीकी खला ख्येल्गिवी।” John 3:36

Friend, if you prayed the prayer and received Jesus Christ — **YOU ARE SAVED! You did what God said — AND GOD CANNOT LIE!**